



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 523]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 1978/अग्रहायण 6, 1900

No. 523]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 1978/AGRAHAYANA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1978

का० आ० 683(अ)/18ई/आई०डी०आर०ए०/78.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक के अधीन जारी किये गये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 567 (अ) दिनांक 18 जुलाई, 1977 द्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता को मैसर्स प्रलेक्जैंड्रा जूट मिल्स, लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अवधारों, निर्बंधनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिसके अधीन रहते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रमों को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18 चक के अधीन आदेश जारी किये जाने के पूर्व उससे लागू होता था।

873 G.I./78

(1463)

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्ध, निर्बंधन और परिसीमाएँ जिनके रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे

1	2
धारा 166	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे। किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियाँ और तुलनपत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी। यह छुट कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 159 (1) के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी।
धारा 210 (1)	—वही—
धारा 224	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि सेवा परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।
धारा 293	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा।

[सं० फा० 3/8/77-सी यू सी]

पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th November, 1978

S.O. 683 (E)/18E/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 567(E) dated the 18th July, 1977, issued under section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, to take over the management of Messrs. Alexandra Jute Mills Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18FA.

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
1	2
Section 166	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 210(1)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 224	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 293	Provision of this Section shall not apply to the said industrial undertaking.

[F. No. 3/8/77-CUC]
P. C. NAYAK, Jt. Secy.